

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1979/भाद्र 15, 1901
No. 183] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1979/BHADRA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 61-ईटीसी(पीएन)/79

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

विषय :— 50 प्रतिशत से अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण, रजत रसायन
एवं मिश्रणों का निर्यात ।

मिसिल सं. 21/114/79-ई —निर्यात नियंत्रण संशोधन आवेदन सं.
ई(सी)ओ. 1979/एएम(106) के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं.
30-ईटीसी(पीएन)/79 दोनों दिनांक 30-3-1979 देखें जिसके अन्तर्गत 50 से

अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण, रजत रसायन एवं मिश्रणों का निर्यात निषेध किया गया था। उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं. की कड़िका 4 में एक व्यवस्था की गई थी कि वचनबद्धता प्रतिबन्ध से पूर्व मामलों पर केवल “पात्रता के आधार पर” ही निर्णय लिया जाएगा।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना सं. 54-ईटीसी (पीएन)/79 दिनांक 13 अगस्त, 1979 की कड़िका 3 की शर्तों जिनके अन्तर्गत विनिर्माण के निर्यात के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रतिबन्ध से पूर्व मामलों और 50% अथवा इससे कम रजत तत्व वाले उत्पादों के मामलों पर विचार किया जाता था वही शर्तें 50% से अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण, रजत रसायन एवं मिश्रण के निर्यात के मामलों में भी लागू होंगी।

सी. वेकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 61-ETC(PN)/79

New Delhi, the 6th September, 1979

Sub : Export of Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents.

F. No. 21/114/79-El.—Export of Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents was banned vide Public Notice No. 30-ETC(PN)/79 read with Export Control Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(106) both dated 30-3-1979. A provision was made in paragraph 4 of the aforesaid Public Notice that cases of pre-ban commitments will be decided “On Merits” only.

2. It has now been decided that the conditions as indicated in para 3 of Public Notice No. 54-ETC(PN)/79 dated 13th August, 1979 for considering cases of pre-control commitments in respect of export of manufactures and products containing 50 per cent or less silver contents, will be applicable to the cases for export of silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver content under pre-ban commitments.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports